



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1—जनवरी 7, 2005 (पौष 11, 1926)  
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1—JANUARY 7, 2005 (PAUSA 11, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1	को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1	भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	*	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्प्रदाय

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	1	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . .	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	*	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .	1	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . .	1
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . .	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .	1
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . .	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . . . . .	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*		

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय  
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

संकल्प

संख्या: I/20017/01/2004-रा0भा0(नीति-1)- भारत सरकार ने केन्द्रीय हिन्दी समिति के पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे

1.	प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2.	गृह मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	गृह मंत्रालय में राजभाषा के प्रभारी राज्य मंत्री	सदस्य
4.	मानव संसाधन विकास मंत्री	सदस्य
5.	सूचना और प्रसारण मंत्री	सदस्य
6.	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री	सदस्य
7.	रेल मंत्री	सदस्य
8.	विदेश मंत्री	सदस्य
9.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री	सदस्य
10.	मुख्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
11.	मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
12.	मुख्य मंत्री, कर्नाटक	सदस्य
13.	मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य
14.	मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र	सदस्य
15.	मुख्य मंत्री, मिजोरम	सदस्य
16.	उपाध्यक्ष, संसदीय राजभाषा समिति	सदस्य
17.	संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति के संयोजक	सदस्य
18.	संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति के संयोजक	सदस्य
19.	संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति के संयोजक	सदस्य
20.	डॉ. मलिक मोहम्मद	सदस्य
21.	डॉ. वाई. लक्ष्मी प्रसाद	सदस्य
22.	डॉ. रत्नाकर पाण्डेय	सदस्य

23.	श्री चन्द्रशेखर धर्माधिकारी	सदस्य
24.	श्री वाई. के. मोदी	सदस्य
25.	श्री के.जी. बालकृष्ण पिल्लै	सदस्य
26.	श्री दीपक कुमार पाठक	सदस्य
27.	श्री मधुकरराव चौधरी	सदस्य
28.	डॉ. बि. रामसंजीवय्या	सदस्य
29.	डॉ. के. के. शङ्कीया	सदस्य
30.	श्री कमलेश्वर	सदस्य
31.	श्री राहुल देव	सदस्य
32.	श्रीमती मृणाल पांडे	सदस्य
33.	श्री धनंजय पति त्रिपाठी	सदस्य
34.	प्रो. सत्य प्रकाश	सदस्य
35.	प्रो. आर. एस. सिरोही	सदस्य
36.	डॉ. स्वदेश भारती	सदस्य
37.	श्री यादवेन्द्र शर्मा	सदस्य
38.	श्रीमती मृदुला सिन्हा	सदस्य
39.	डॉ. राजेन्द्र अवस्थी	सदस्य
40.	श्री बालकवि बैरागी	सदस्य
41.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य - सचिव

2. यह समिति हिन्दी के विकास और प्रसार के विषय में तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्य तथा कार्यक्रमों का समन्वय करेगी।

3. अपने काम के निष्पादन में सहायता देने के लिए समिति को आवश्यकतानुसार उपसमितियां नियुक्त करने और अतिरिक्त सदस्य सहयोजित करने का अधिकार होगा।

4. समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देने के प्रयोजन से इस समिति को उच्च - स्तरीय समिति माना जायगा।

5. समिति के कार्यकाल की अवधि उसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष होगी।

6. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

बालेश्वर राय  
सचिव

**वस्त्र मंत्रालय**  
**विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय**

नई दिल्ली-110066, दिनांक 10 दिसम्बर 2004

**संकल्प**

फा0 सं0 के -16/4/98-पीएण्डआर - सं0 के -16/4/98- पीएण्डआर - दिनांक 17.3.2003 के संकल्प के तहत गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की अवधि की समाप्ति पर भारत सरकार ने अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का दो वर्षों के लिए पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है।

- I. अध्यक्ष, सरकारी सदस्य एवं संस्थान के सदस्य बोर्ड के स्थायी सदस्य हैं। तथापि, रोटेशनल सरकारी सदस्य एवं गैर-सरकारी सदस्य भारत के राजपत्र में संकल्प के प्रकाशन की तिथि से दो वर्षों के लिए बने रहेंगे।
- II. बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

**अध्यक्ष**

वस्त्र मंत्रालय  
भारत सरकार  
उद्योग भवन  
नई दिल्ली।

**स्थायी सरकारी सदस्य**

1. सचिव (वस्त्र)  
वस्त्र मंत्रालय  
भारत सरकार  
उद्योग भवन  
नई दिल्ली।
2. सचिव  
ग्रामीण विकास विभाग  
भारत सरकार  
कृषि भवन  
नई दिल्ली -110001

- 3 सचिव  
लघु एवं कृषि ग्रामीण उद्योग  
भारत सरकार  
उद्योग भवन  
नई दिल्ली -110001
4. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार  
वस्त्र मंत्रालय  
भारत सरकार  
उद्योग भवन  
नई दिल्ली -110001  
  
सलाहकार (वी एस आई)  
योजना आयोग  
भारत सरकार  
योजना भवन  
नई दिल्ली -110001
- 6 प्रबन्ध निदेशक  
ट्राईफेड  
द्वितीय तल, एन सी यू आई बिल्डिंग  
3- सिरो इंस्टीट्यूशनल एरिया  
अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास  
नई दिल्ली -110016
- 7 सचिव  
हस्तशिल्प प्रभार  
उत्तर प्रदेश सरकार  
राज्य सचिवालय  
लखनऊ -226001
- 8 सचिव  
हस्तशिल्प प्रभार  
पश्चिम बंगाल सरकार  
(कुटीर एवं लघु उद्योग)  
राइटर्स बिल्डिंग  
कोलकाता (पश्चिम बंगाल) -700001

9. सचिव  
हस्तशिल्प प्रभार  
राजस्थान सरकार  
राज्य सचिवालय  
जयपुर (राज0) —301001
10. वरिष्ठ निदेशक  
राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प संग्रहालय  
प्रगति मैदान  
नई दिल्ली —110002

#### गोटेेशनल सरकारी सदस्य

1. सचिव — हस्तशिल्प प्रभार  
असम सरकार  
दिसपुर
2. सचिव — हस्तशिल्प प्रभार  
त्रिपुरा सरकार  
अगर्तला
3. सचिव — हस्तशिल्प प्रभार  
कर्नाटक सरकार  
बंगलौर
4. सचिव — हस्तशिल्प प्रभार  
महाराष्ट्र सरकार  
मुम्बई
5. सचिव — हस्तशिल्प प्रभार  
उत्तरांचल सरकार  
देहरादून

#### संस्थान के सदस्य

1. कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, पाल्दी, अहमदाबाद—380007
2. कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, निफ्ट कैम्पस्, हौज खास, नई दिल्ली —110016
3. अध्यक्ष, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, मुम्बई—400056
4. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई —40001

5. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश —226001
6. अध्यक्ष, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, वसंत कुंज।
7. अध्यक्ष, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली —110029
8. निदेशक, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही (उत्तर प्रदेश) —221401

#### गैर-सरकारी सदस्य

1. श्री संजय गुप्ता  
अदानी एक्सपोर्ट्स, अहमदाबाद  
(गुजरात)
2. श्री अशोक मालवीय  
मालवीय हैण्डिकाफ्ट्स  
अबु रोड, राजस्थान
3. श्री एस0 रामराज  
के0एस0एम0 स्ट्रीट  
चिन्नालापट्टी —624301  
जिला -- डिंडगुल (तमिलनाडू)
4. श्री नीरज धामा  
32, न्यू गुडगांव प्लाजा  
नरुलाज क सामने, दिल्ली गुडगांव रोड  
गुडगांव (हरियाणा)
5. चौधरी हवा सिंह बिंझौल  
कोठी नं0 60, सेक्टर-11  
हुडा, जी0टी0 रोड  
पानीपत (हरियाणा)
6. श्री किशोर चंद्रशेखर पांडा  
डाकखाना —बोलगढ़, जिला—खुरदा,  
उड़ीसा— 752606
7. श्री मनमोहन दीक्षित  
ए/6, एच आई जी, रिको कालोनी  
अबु रोड, राजस्थान— 307026
8. श्री आर0के0 शर्मा  
पश्चिम जोन सांस्कृतिक केन्द्र  
उदयपुर, राजस्थान



9. श्री पवन कुमार जैन  
57, थंगल बाजार, इम्फाल  
मणिपुर —795001
10. सुश्री डी० सुमित्रा  
मकान नं० 2-9-161, अजर रोड  
भानगीर, जिला — नालगुण्डा  
आन्ध्र प्रदेश
11. श्री के०के० श्रीनिवास  
मकान नं० सी/116, फेज -2  
वसंतलीपुरम  
हैदराबाद -70 (आन्ध्र प्रदेश)
12. श्रीमती कश्मीरा नथवानी  
"श्री माँ" 34- शांति निकेतन  
यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट- 2  
गुजरात
13. डा० एल०सी० शर्मा  
संजय हॉस्पिटल एण्ड मैटरनिटी सैन्टर प्रा० लि०,  
आर जेड- 11, मेन रोड, पालम कॉलोनी  
नई दिल्ली -45
14. श्री राजीव कुमार गौतम  
ई- 13/6, द्वितीय तल,  
खिड़की विस्तारण, मालवीय नगर  
नई दिल्ली -17
15. सुश्री धन लक्ष्मीबेन  
कच्छ, भुज  
गुजरात
16. श्री एन०पी० प्रजापति  
पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार  
बस स्टैंड, नरसिंह पुर  
मध्य प्रदेश

17. सुश्री रशीलाबेन मकवाना  
गायत्री कृपा, हुडको, 474,  
आनंद नगर, भावनगर  
गुजरात
18. श्री सैइद फारुक अली  
सुपुत्र स्वर्गीय श्री महफूज अली  
52 बी, प्रिंस कॉलोनी,  
भोपाल, मध्य प्रदेश
19. श्री गभुभाई जखुभाई वनकर  
भुजोदी, तालुक — भुज  
जिला — कच्छ  
गुजरात
20. श्रीमती नंदिता बक्शी  
सी- 349, डिफेंस कॉलोनी  
नई दिल्ली — 110024
21. श्री विनय शर्मा  
मकान नं० 403, वरुणी अपार्टमेंट्स  
आदर्श नगर, जयपुर  
राजस्थान

श्री संजय गुप्ता, गैर-सरकारी सदस्य पुर्नगठित बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे किन्तु उनके पास कोई प्रशासनिक एवं वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं होगा।

#### सदस्य सचिव

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)  
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय  
भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय,  
पश्चिमी खण्ड-7, रामकृष्ण पुरम  
नई दिल्ली - 66

III. बोर्ड, कारीगरों के सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हस्तशिल्प क्षेत्र में सम्पूर्ण विकास कार्यक्रमों के निरूपण में सरकार को परामर्श देगा। बोर्ड की, विशेष रूप से निम्नलिखित भूमिका होगी :-

1. हस्तशिल्प क्षेत्र में सम्पूर्ण विकास कार्यक्रमों के निरूपण में सरकार को परामर्श देना।

2. शिल्पियों के लिए उच्च जीवन स्तर को प्राप्त करने हेतु रणनीतियों के निरूपण में सरकार को परामर्श देना।
3. शिल्प विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
4. देश एवं विदेशों में हस्तशिल्प के लिए बाजारों को बढ़ाने हेतु रणनीतियां बनाने में सरकार को परामर्श देना।
5. हस्तशिल्प में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के विकासात्मक प्रयासों के प्रभावी समन्वय हेतु कदम उठाना।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डा० संदीप श्रीवास्तव  
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

## इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 2004

संकल्प

सं०ई० 11015(3)/2004-हिंदी (.), इस्पात मंत्रालय के दिनांक 30 नवंबर, 2004 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने पर निम्नलिखित संसद सदस्यों को एतद्वारा इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है:-

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	
1.	श्री आत्मा सिंह गिल, संसद सदस्य (लोक सभा), 209, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली	सदस्य
2.	श्री बिक्रम केसरी देव, संसद सदस्य (लोक सभा), 188, साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री उदय प्रताप सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा), 12-ए, गुरद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री नारायण सिंह केसरी, संसद सदस्य (राज्य सभा), सी-11/10, तिलक लेन, नई दिल्ली	सदस्य

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अजय कुमार  
संयुक्त सचिव

**कृषि मंत्रालय**  
**(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)**

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 नवम्बर 2004

**संकल्प**

**सं. 43-86/2004-एल.डी.टी. (पी)**

इस मंत्रालय के दिनांक 9 फरवरी, 1994 के संकल्प संख्या 43-49/91-एल.डी.टी. के अधिक्रमण में भारत सरकार ने केन्द्रीय कुक्कुट विकास परामर्शी परिषद का तत्काल प्रभाव से 4 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है।

2. परिषद की संरचना इस प्रकार होगी:-

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. अध्यक्ष  | : | कृषि मंत्री                            |
| 2. उपाध्यक्ष  | : | राज्य मंत्री (पशुपालन एवं डेयरी विभाग) |
|   | : | सरकारी सदस्य                           |
| 3. सचिव, भारत सरकार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली -110001                       |   |  |
| 4. उप महानिदेशक, पशुविज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि भवन, नई दिल्ली -1100001 |   |  |
| 5. पशुपालन आयुक्त, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली -110001                         |   |  |
| 6. संयुक्त सचिव (डीडीएण्डपी), पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली -110001              |   |  |
| 7. संयुक्त सचिव (फसल एवं टीएमओपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001        |   |  |

8. अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) (वणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार), एनसीयूआई भवन, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016
9. सचिव, पशुपालन, महाराष्ट्र सरकार, सचिवालय, मुम्बई, महाराष्ट्र, प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए
10. सचिव, पशुपालन, तमिलनाडु सरकार, फोर्ट सेंट जार्ज, चैन्नई -600009, तृतीय एवं चौथे वर्ष के लिए
11. प्रबंध निदेशक, नेशनल एग्रीकल्चरल कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (नेफेड), नेफेड हाऊस, सिद्धार्थ इन्कलेव, रिंग रोड, आश्रम चौक, नई दिल्ली -110014
12. अध्यक्ष/प्रतिनिधि, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), प्लॉट नं0 सी-24 जी ब्लॉक, पोस्ट बैग नं0 8121, बांद्रा कुरल काम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई -400051
13. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारिता विकास कॉर्पोरेशन (एनसीडीसी), मुख्यालय, 4, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली - 110016
14. निदेशक, केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई), इज्जतनगर, बरेली, उ0प्र0 - 243122
15. सदस्य सचिव : संयुक्त आयुक्त (कुक्कुट)

#### गैर सरकारी सदस्य

16. अध्यक्ष, द कम्पाउण्ड लाइवस्टॉक फीड मैनुफ़ैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (क्लेफ्मा), 111, मित्तल चैम्बर्स, 11वां तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई -400021

17. अध्यक्ष (श्रीमती अनुराधा देसाई), नेशनल एग कोआर्डिनेशन समिति (एनईसीसी), वेंकटेश्वर हाउस, क्रम संख्या 114/ए/2, पूणे सिन्हागढ़ रोड, पूणे -411030
18. निर्यातकों के प्रतिनिधि (श्री सौन्दर्या राजन), सुगुना पोर्ल्टी ग्रुप, उडुमलपेट, कोयम्बटूर -641018
19. श्री बहादुर अली, प्रबंध निदेशक, भारतीय कुक्कुट बलदेव बाग, राजनंदगांव -491441, छत्तीसगढ़
20. डॉ० ए.एल. भागवत, सचिव, विश्व कुक्कुट विज्ञान संघ (भारतीय शाखा), लक्ष्मी रेजीडेंसी, 10वीं लेन, दहानुकार कालोनी, कोथरूड, महाराष्ट्र
21. श्री गोपाल रेड्डी, आंध्र प्रदेश ब्रॉयलर किसान संघ के प्रबंध निदेशक तथा संयोजक, स्नेहा फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड, मकान नं० 1-1-230/2/4, विवेक नगर, चिकाडपल्ली, हैदराबाद -500020
22. श्री राजिन्दर मित्तल, महासचिव, उत्तर भारत कृषक संघ, मकान नं० 564, सैक्टर -16, पंचकुला 134109
23. श्री संदीप मेहता, मेहता पोल्ट्री फार्म, मकान नं० 2045, लक्कर मंडी चौक, राजपुरा टाउन -140401, जिला - पटियाला, पंजाब

3. यह परिषद एक परामर्शी निकाय होगी और इसके निम्नलिखित कार्य होंगे:-

- (i) कुक्कुट विकास के लिए उचित जर्मप्लाज्म, आहार अवयवों, दवाईयों, टीकों आदि जैसे अपेक्षित आदानों की उपलब्धता पर विचार करना।
- (ii) शीत श्रृंखला के सृजन, प्रसंस्करण यूनिटों तथा उचित बाजार नेटवर्क के जरिए वाणिज्यिक एवं ग्रामीण कुक्कुट के विकास के लिए सहायक पर्यावरण सृजित करना।
- (iii) कुक्कुट उत्पादन श्रृंखला के इनपुट एवं आउटपुट के लिए अपशिष्ट निगरानी प्रयोगशालाओं की स्थापना करके खाद्य एवं आहार सुरक्षा

- (iv) इस क्षेत्र में अंतिम उपयोगकर्ता के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी के निरंतर स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाना।
  - (v) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले कोई भी अन्य कार्य।
4. परिषद की बैठक समय-समय पर अध्यक्ष महोदय के निर्णयानुसार किसी भी समय और स्थान हो सकती है।

### आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

नीरजा राजकुमार  
संयुक्त सचिव



मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2004

सं० एफ.9-9/2001-यू-3

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली को उक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ तत्काल प्रभाव से सम विश्वविद्यालय घोषित करती है।

सुनिल कुमार  
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2004

सं० एफ.९-२७/२०००-यू-३

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा घोषणा करती है कि जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नोएडा (उत्तर प्रदेश), को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नई श्रेणी के तहत तत्काल प्रभाव से राम-विश्वविद्यालय घोषित करती है जिसकी तीन वर्ष के पश्चात समीक्षा की जाएगी।

जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नोएडा को राम-विश्वविद्यालय का दर्जा इस शर्त पर दिया जाता है कि (i) जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नोएडा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम विश्वविद्यालयों सम्बन्धी मॉडल संगम ज्ञापन/नियमों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन/नियमों को संशोधित करेगा। (ii) जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नोएडा अपनी भूमि को जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोसायटी के नाम अंतरित करेगा; और (iii) वह समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का पालन करेगा।

रवि माथुर  
संयुक्त सचिव

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2004

संकल्प

सं0ई-11015/8/2002-हिन्दी: इस मंत्रालय के दिनांक 22.1.2003 तथा 03.03.2004 के संकल्प संख्या ई-11015/8/2002 हिन्दी में आंशिक संशोधन करते हुए क्र.सं. 3, 4, 5 और 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाती है:-

क्र0सं0

3. श्री पी.के.महेश्वरी, संसद सदस्य (राज्य सभा) ।
4. श्री के.सी.सिंह बाबा, संसद सदस्य (लोक सभा) ।
5. श्री राजीव रंजन सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा) ।
7. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी, संसद सदस्य (लोक सभा) ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा- परीक्षक को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

प्रवीण कुमार त्रिपाठी  
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 15th December 2004

**RESOLUTION**

No. 1/20017/01/2004-O.L.(Policy-1)- The Government of India have decided to reconstitute the Kendriya Hindi Samiti. The Samiti will consist of :-

- |     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 1.  | Prime Minister   | Chairman        |
| 2.  | Home Minister  | Deputy Chairman |
| 3.  | Minister of State in the Ministry of Home Affairs in-charge of Official Language     | Member          |
| 4.  | Minister of Human Resource Development   | Member          |
| 5.  | Minister of Information & Broadcasting   | Member          |
| 6.  | Minister of Communications & I.T.  | Member          |
| 7.  | Minister of Railways   | Member          |
| 8.  | Minister of External Affairs   | Member          |
| 9.  | Minister of Personnel, Public Grievances & Pensions                                  | Member          |
| 10. | Chief Minister, Andhra Pradesh   | Member          |
| 11. | Chief Minister, Uttar Pradesh  | Member          |
| 12. | Chief Minister, Karnataka  | Member          |
| 13. | Chief Minister, West Bengal  | Member          |
| 14. | Chief Minister, Maharashtra  | Member          |
| 15. | Chief Minister, Mizoram  | Member          |
| 16. | Deputy Chairman of the Committee of Parliament on Official Language                  | Member          |
| 17. | Convenor of first sub-committee of the Committee of Parliament on Official Language  | Member          |
| 18. | Convenor of second sub-committee of the Committee of Parliament on Official Language | Member          |
| 19. | Convenor of third sub-committee of the Committee of Parliament on Official Language  | Member          |

20.	Dr. Malik Mohammad	Member
21.	Dr. Y. Laxami Prasad	Member
22.	Dr. Ratnakar Pandey	Member
23.	Shri Chandrashekhar Dharmadhikari	Member
24.	Shri Y. K. Modi	Member
25.	Shri K. G. Balkrishan Pillai	Member
26.	Shri Deepak Kumar Pathak	Member
27.	Shri Madhukarrao Chaudhary	Member
28.	Dr. B. Ramasanjeevaiah	Member
29.	Dr. K. K. Saikia	Member
30.	Shri Kamleshwar	Member
31.	Shri Rahul Dev	Member
32.	Smt. Mrinal Pandey	Member
33.	Shri Dhananjay Pati Tripathi	Member
34.	Professor Satya Prakash	Member
35.	Professor R. S. Sirohi	Member
36.	Dr. Swadesh Bharti	Member
37.	Shri Yadvendra Sharma	Member
38.	Smt. Mridula Sinha	Member
39.	Dr. Rajendra Awasthy	Member
40.	Shri Balkavi Bairagi	Member
41.	Secretary, Department of Official Language	Member-Secretary

2. The functions of this Samiti will be to bring about coordination in the work and programmes relating to the development and propagation and progressive use of Hindi for official purposes being implemented by the various Ministries/Departments of Government of India.
3. The Samiti will have the power to appoint Sub-Committies and co-opt additional members, as may be necessary, for assisting it in the discharge of its functions.
4. This Samiti will be treated as a High Powered Committee for the purposes of grant of TA/DA to its non-official members for participation in its meetings.
5. The term of the Samiti will be three years from the date of its reconstitution.
6. The headquarter of the Samiti will be at New Delhi.

**ORDER**

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Administrators of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

BALESHWAR RAI  
Secy.

MINISTRY OF TEXTILES  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 10th December 2004

**RESOLUTION**

**F. No. K-16/4/98-P&R-** On expiry of the term of All India Handicrafts Board constituted vide resolution No.16/4/98-P&R dated 17.03.2003, the Government of India has decided to reconstitute the said Board again for a tenure of two years.

- I. The Chairman, the Official Members and the Institutional Members are the permanent Members of the Board. However, the term of Rotational Official Members and the Non-official Members would be for two years from the date of publication of the Resolution in the Gazette of India.
- II. The Board will consist of the following Members :

**CHAIRMAN**

Minister of Textiles  
Government of India  
Udyog Bhawan  
New Delhi

**PERMANENT OFFICIAL MEMBERS**

1. Secretary (Textiles)  
Ministry of Textiles  
Government of India  
Udyog Bhawan  
New Delhi
2. Secretary  
Department of Rural Development  
Government of India  
Krishi Bhawan  
New Delhi-110001
3. Secretary  
Department of Small Scale & Agro  
Rural Industries  
Government of India  
Udyog Bhawan  
New Delhi-110001

4. Addl. Secretary & Financial Adviser,  
Ministry of Textiles  
Government of India  
Udyog Bhawan  
New Delhi-110001
5. Adviser (VSI)  
Planning Commission  
Government of India  
Yojana Bhawan  
New Delhi-110001
6. Managing Director  
TRIFED  
2<sup>nd</sup> Floor, NCUI Building  
3-Siri Institutional Area  
August Kranti Marg, Hauz Khas  
New Delhi-110016
7. Secretary  
Incharge of Handicrafts  
Government of Uttar Pradesh  
State Secretariat  
Lucknow-226001
8. Secretary  
Incharge of Handicrafts  
Govt. of West Bengal  
(Cottage & Small Scale Industries)  
Writers Building  
Kolkatta (W.B.) 700001
9. Secretary  
Incharge of Handicrafts  
Govt. of Rajasthan  
State Secretariat  
Jaipur (Raj.) 3012001
10. Senior Director  
National Handloom and Handicrafts Museum  
Pragati Maidan  
New Delhi-110002

#### **ROTATIONAL OFFICIAL MEMBERS**

1. Secretary-Incharge of Handicrafts  
Govt. of Assam  
Dispur



2. Secretary-Incharge of Handicrafts  
Govt. of Tripura  
Agartala
3. Secretary Incharge of Handicrafts  
Govt. of Karnataka  
Bangalore
4. Secretary Incharge of Handicrafts  
Govt. of Maharashtra  
Mumbai
5. Secretary Incharge of Handicrafts  
Govt. of Uttaranchal  
Deheradun

#### **INSTITUTIONAL MEMBERS**

1. Executive Director, National Institute for Design, Paldi, Ahmedabad, 380007
2. Executive Director, National Institute of Fashion Technology, NIFT Campus, Hauz Khas New Delhi-110016
3. Chairman, Khadi & Village Industries Commission, Mumbai-400056
4. Managing Director, National Bank of Agriculture & Rural Development, Mumbai-40001
5. Managing Director, Small Industries Development Bank of India, Lucknow, (UP) 226001
6. Chairman, Export promotion Council for Handicrafts, Vasant Kunj
7. Chairman, Carpet Export Promotion Council, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029
8. Director, Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi(UP) 221401

#### **NON OFFICIAL MEMBERS**

1. Shri Sanjay Gupta  
Adani Exports, Ahmedabad  
(Gujarat)
2. Shri Ashok Malviya  
Malviya Handicrafts  
Abu Road, Rajasthan
3. Shri S. Ramraj  
K.S.M. Street  
Chinnalapatti-624301  
Dindigul District (TN)
4. Shri Neeraj Dhama  
32, New Gurgaon Plaza  
Opp. Nirulas, Delhi Gurgaon Road  
Gurgaon (Haryana)

5. Ch. Hawa Singh Binjhol  
Kothi No. 60, Sector-11  
HUDA,, G.T. Road  
Panipat (Haryana)
6. Shri Kishor Chandra Sekhar Panda  
PO –Bolgarh, Dist.- Khurda,  
Orissa-752606
7. Shri Manmohan Dikshit  
A/6, HIG RIICO Colony  
Abu Road,  
Rajasthan-307026
8. Shri R.K.Sharma  
West Zone Cultural Centre  
Udaipur  
Rajasthan
9. Shri Pawan Kumar Jain  
57, Thangal Bazzar, Imphal  
Manipur-795001
10. Ms. D. Sumitra  
H.No. 2-9-161, Azar Road  
Bhangir, Nalgunda District  
(Andhra Pradesh)
11. Shri K.K.Srinivas  
H.No. C/116, Phase- II  
Vasanthlipuram  
Hyderabad-70 (Andhra Pradesh)
12. Smt. Kashmira Nathwani  
“Shri Maa” 34-Shanti Niketan  
University Road,  
Rajkot-2  
(Gujarat)
13. Dr. L.C. Sharma  
Sanjay Hospital and Maternity Centre  
Pvt. Ltd., RZ-11, Main Road  
Palam Colony,  
New Delhi-45
14. Shri Rajiv Kumar Gautam  
E-13/6, 2<sup>nd</sup> Floor, Khirki Extension  
Malviya Nagar,  
New Delhi-17

15. Ms. Dhan Lakshminiben  
Kutch, Bhuj  
Gujarat
16. Shri N.P. Prajapati  
Ex- Minister, Govt. of MP  
Bus Stand, Narasingpur  
Madhya Pradesh
17. Ms. Rashilaben Makwana  
Gayatri Kripa, HUDCO, 474,  
Anand Nagar  
Bhavnagar  
Gujarat
18. Shri Sayeed Farooq Ali  
S/o Late Shri Mehfooz Alil  
52B, Prince Colony,  
Bhopal  
Madhya Pradesh
19. Shri Gabhubhai Jakhubhai Vanker  
T.O. Bhujodi, Ta. Bhuj  
Distt. Kutch  
Gujarat
20. Mrs. Nandita Bakshi  
C-349, Defence Colony  
New Delhi-110024
21. Shri Vinay Sharma  
Flat No. 403, Varuni Apptt.  
Adarsh Nagar, Jaipur  
Rajasthan

**Shri Sanjay Gupta, Non -Official Member shall function as Vice –Chairman of the reconstituted Board but will not have any administrative and financial responsibilities.**

**MEMBER SECRETARY**

Development Commissioner (Handicrafts)  
Office of the Development Commissioner (Handicrafts)  
Government of India, Ministry of Textiles  
West Block-7, R.K.Puram,  
New Delhi-110066

- III. The board will advise the Govt. in the formulation of the overall development programmes in handicrafts sector, keeping their socio-economic cultural and artistic perspectives in view. In particular, the Board will have the following role: -

1. To advise the Govt. in the formulation of the overall development programmes in the handicrafts sector.
2. To advise the Govt. in formulating the strategies to achieve a higher standard of living for craftpersons.
3. To preserve and promote the craft heritage.
4. To advise the Govt. in evolving strategies for expanding markets for handicrafts in the country and abroad.
5. To take steps for effective coordination of the development efforts of various Govt. agencies in the sector.

### **ORDER**

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

DR. SANDEEP SRIVASTAVA  
Addl. Development Commissioner (Handicrafts)

**MINISTRY OF STEEL**

New Delhi, the 13th December 2004

**Resolution**

No.E.11015(3)/2004-Hindi (.). In continuation of this Ministry's resolution of even number dated 30 November, 2004, following Members of Parliament nominated by Ministry of Parliamentary Affairs are hereby included as members in the Hindi Salahkar Samiti of Ministry of Steel :-

S.No.	Name of the member	
1.	Sh. Atma Singh Gill, Member of Parliament (Lok Sabha), 209, North Avenue, New Delhi	Member
2.	Sh. Bikram Keshari Deo, Member of Parliament (Lok Sabha), 188, South Avenue, New Delhi	Member
3.	Sh. Uday Pratap Singh, Member of Parliament (Rajya Sabha), 12-A, Gurudwara Rakab Ganj Road, New Delhi	Member
4.	Sh. Narayan Singh Kesari, Member of Parliament (Rajya Sabha), C-11/10, Tilak Lane, New Delhi	Member

**ORDER**

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Government and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be Published in the Gazette of India for general information.

AJAY KUMAR  
Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi-110001, the 23rd November 2004

No.43-86/2004-LDT(P)

**RESOLUTION**

In supersession of this Ministry's Resolution No.43-49/91-LDT dated the 9<sup>th</sup> February, 1994, the Govt. of India have decided to reconstitute the Central Poultry Development Advisory Council (CPDAC) for a period of 4 years with immediate effect.

2. The composition of the Council will be as under:-

1. Chairperson : Agriculture Minister
2. Vice : Minister of State (Animal Husbandry & Dairying)  
Chairperson : **Official Members**
  3. Secretary to the Government of India, Department of Animal Husbandry & Dairying, Krishi Bhavan, New Delhi- 110 001
  4. Deputy Director General, Animal Sciences, Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Krishi Bhavan, New Delhi- 110 001.
  5. Animal Husbandry Commissioner, Department of Animal Husbandry & Dairying, Krishi Bhavan, New Delhi- 110 001
  6. Joint Secretary (DD&P), Department of Animal Husbandry & Dairying, Krishi Bhavan, New Delhi- 110 001.
  7. Joint Secretary (Crops & TMOP), Department of Agriculture & Cooperation, Krishi Bhavan, New Delhi- 110 001
  8. Chairperson, Agricultural & Processed Food Export Development Authority (APEDA) (Ministry of Commerce, Govt. of India), NCU Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110 016

9. Secretary, Animal Husbandry, Government of Maharashtra, Sachivalaya, Mumbai, Maharashtra for first and second year.
10. Secretary, Animal Husbandry, Government of Tamil Nadu, Fort St. George, Chennai- 600 009 for third and fourth year.
11. Managing Director, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED), NAFED HOUSE, Siddhartha Enclave, Ring Road, Ashram Chowk, New Delhi – 110 014
12. Chairperson/Representative, National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD), Plot No. C-24G Block, Post Box no.8121, Bandra Kurl Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051
13. Managing Director, National Cooperative Development Corporation (NCDC), Head Office, 4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi – 110 016
14. Director, Central Avian Research Institute (CARI), Izatnagar, Bareilly, Uttar Pradesh- 243 122
15. **Member Secretary** : Joint Commissioner (Poultry)

**Non-Official members**

16. Chairperson, The Compound Livestock Feed Manufacturer's Association of India (CLFMA), 111, Mittal Chambers, 11<sup>th</sup> Floor, Nariman Point, Mumbai- 400 021.
17. Chairperson (Mrs. Anuradha Desai), National Egg Coordination Committee (NECC), Venkateshwara House, S.No. 114/A/2, Pune Sinhagad Road, Pune- 411 030.
18. Representative of Exporters (Sh.. Soundara Rajan) Suguna Poultry Group, Udumalpet, Coimbatore- 641 018.
19. Sh.Bahadur Ali, Managing Director, Indian Poultry, Baldeo Bag, Rajnandgaon- 491 441. Chattisgarh.
20. Dr. A.L. Bhagwat, Secretary, World Poultry Science Association (Indian Branch), Laxmi Residency, 10<sup>th</sup> Lane, Dahanukar Colony, Kothrud, Maharashtra

21. Mr. Gopal Reddy, Managing Director & Convenor of Andhra Pradesh Broiler Farmers Association, Sneha Farms Pvt. Ltd., House No. 1-1-230/2/4, Vivek Nagar, Chicadpalli, Hyderabad- 500 020
22. Mr. Rajinder Mittal, General Secretary, North India Farmers Association, H.No. 564, Sector 16, Panchkula 134 109
23. Mr. Sandeep Mehta, Mehta Poultry Farm, H.No. 2045, Lakkar Mandi Chowk, Rajpura Town- 140 401, District Patiala, Punjab

3. The Council will be an advisory body and will have the following functions :-

- i) To consider the availability of inputs required for poultry development like appropriate germ plasm, feed ingredients, medicines, vaccines, etc.
- ii) To create conducive environment for the growth of commercial and rural poultry through creation of cold chain, processing units and proper marketing network.
- iii) To consider creating infra-structure for implementing food and feed safety regulations by establishing residue monitoring laboratories for inputs and outputs of poultry production chain.
- iv) To facilitate continuous transfer of latest technology in the field to the end users.
- v) Any other function which may be assigned from time to time by the Government of India.

4. The Committee will meet periodically at such time and place as may be decided by the Chairman.

#### ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, Administrators of Union Territories and Departments/Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's office.

Ordered that Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NEERJA RAJKUMAR  
Jt. Secy.



MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 29th October 2004

No.F.9-9/2001- U.3

In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declare the Indian Law Institute, New Delhi as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect.

SUNIL KUMAR  
Jt. Secy.

New Delhi, the 1st November 2004

No.F.9-27/2000- U.3

In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declare the Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh) as Deemed to be University under De-novo category for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect subject to review after three years.

The grant of de-novo Deemed to be University status to Jaypee Institute of Information Technology, Noida is subject to the conditions that (i) JIIT, Noida will revise/ amend its MOA/ Rules as per UGC Model MOA / Rules for deemed Universities; (ii) JIIT, Noida will get its land transferred in the name of JIIT Society; and (iii) It will adhere to the guidelines / instructions issued by UGC and AICTE from time to time as applicable to the Deemed Universities".

RAVI MATHUR  
Jt. Secy.

## MINISTRY OF INFORMATION &amp; BROADCASTING

New Delhi, the 9th December 2004

RESOLUTION

No E-11015/8/2002-Hindi. Making partial amendment in the resolution No. E-11015/8/2002-Hindi dated 22-01-2003 and dated 03.03.2004 of this Ministry, the following entries are made in lieu of Sl.No. 3,4,5, and 7 :-

Sl. No.

3. Shri P.K. Maheshwari, Member of Parliament ( Rajya Sabha )
4. Shri K.C. Singh Baba, Member of Parliament ( Lok Sabha )
5. Shri Rajeev Ranjan Singh, Member of Parliament ( Lok Sabha )
7. Dr. Prasanna Kumar Patsani, Member of Parliament ( Lok Sabha )

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the members of the Committee, all State Government and Union Territory Administration, All Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazettee of India for general information.

P. K. TRIPATHI  
Jt. Secy.